

## CLASS NOTES

Class: छठवीं

Topic: काल

Subject: हिंदी

( हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखिए )

ज़रा बताइए तो

प्रश्न - काल हमें क्या जानकारी देता है ?

उत्तर - काल हमें क्रिया के होने के समय की जानकारी देता है ।

प्रश्न - काल के कितने भेद होते हैं ?

उत्तर - काल के तीन भेद होते हैं -

1. वर्तमान काल
2. भूतकाल
3. भविष्यत् काल

प्रश्न - 'मेरी परीक्षा समाप्त हो गई ।' वाक्य में कौन - सा काल है ?

उत्तर - 'मेरी परीक्षा समाप्त हो गई ।' इस वाक्य में भूतकाल है ।

आइए, अब लिखें

1. निम्नलिखित वाक्यों में निर्देशानुसार काल परिवर्तित कीजिए -

क) खपच्चियों से तरह - तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं । (भूतकाल)

उत्तर - खपच्चियों से तरह - तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती थीं ।

ख) स्त्रियाँ समूह में गाती हैं । (भविष्यत् काल)

उत्तर - स्त्रियाँ समूह में गाएँगी ।

ग) उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं । (भविष्यत् काल)

उत्तर - उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होंगे ।

घ) पलक पढ़ाई में अपनी बहन की मदद करती है । (भूतकाल)

उत्तर - पलक पढ़ाई में अपनी बहन की मदद करती थी ।

ङ) वह परिश्रम करता, तो अवश्य सफल होता । (वर्तमान काल)

उत्तर - वह परिश्रम करता है, इसलिए सफल होता है ।

2. निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया छँटकर उसका काल और भेद बताइए -

क) प्रवीन और दीपा हमेशा दूसरों से झगड़ा करते रहते थे ।

ख) नेहा के माता - पिता सभागार में बैठे उसका नृत्य देख रहे हैं ।

ग) भाषण के बाद पूरा हाल तालियों से गूँज उठा ।

घ) स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है ।

ड) विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है ।

उत्तर - क्रिया	क्रिया का काल	क्रिया का भेद
क) झगड़ा	भूतकाल	सकर्मक क्रिया
ख) नृत्य	वर्तमान काल	सकर्मक क्रिया
ग) ताली	भूतकाल	सकर्मक क्रिया
घ) प्रसन्न चित्त	वर्तमान काल	सकर्मक क्रिया
ड) प्रगति	भूतकाल	सकर्मक क्रिया

3. निम्नलिखित गद्यांश को वर्तमान काल में परिवर्तित करके दुबारा लिखिए -

इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था । तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए और उसको पकड़कर वापस घर छोड़ आए । घर पर माँ उसका इंतजार कर रही थी । बस, अब उसकी खैरियत न थी । उसके पापा ना होते तो उसका बचना मुश्किल था ।

उत्तर - इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा है । तभी जाने कहीं से सिपाही दौड़े चले आते हैं और उसको पकड़कर वापस घर छोड़ आते हैं । अब घर पर माँ उसका इंतजार कर रही हैं । बस, अब उसकी खैरियत नहीं है । उसके पापा नहीं हैं इसलिए उसका बचना मुश्किल है ।

4. धातु के उचित रूप लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

क) मेरी नानी प्रतिदिन कहानी सुनाती हैं । (सुन)

ख) उसने सुबह से कुछ नहीं खाया । (खा)

ग) क्या तुमने मेरी पुस्तक कहीं देखी ? (देख)

घ) मामाजी कल सुबह की गाड़ी से आएँगे । (आ)

ड) हम कल अक्षरधाम देखने जाएँगे । (जा)

ज्ञातव्य: ऊपर लिखित पाठ्य एवं लेखन सामग्री पूर्ण रूपेण घर पर ही तैयार की गई है ।

## CLASS NOTES

Class: छठवीं

Topic: अनेकार्थक शब्द एवं मुहावरे

Subject: हिंदी

( हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखिए )

### अनेकार्थक शब्द

शब्द	अर्थ
घट	घड़ा, कम, हृदय
घन	बादल, हथौड़ा, घना
चपला	बिजली, लक्ष्मी, चंचल स्त्री
तात	पिता, भाई, मित्र
तीर	बाढ़, किनारा
नग	वृक्ष, पर्वत, नगीना
नाग	बादल, सर्प, हाथी
पत्र	पत्ता, चिट्ठी, पंख, कागज़
पतंग	सूर्य, गुड्डी, टिड्डी
पानी	जल, चमक, सम्मान
मंगल	ग्रह, दिन(सप्ताह का एक दिन), शुभ
फल	पेड़ - पौधों का गूदेदार बीजकोश, नतीजा, संतान
सुधा	अमृत, दूध, जल
सुरभि	गाय, पृथ्वी, सुगंध

प्रश्न १ निम्नलिखित शब्दों के अनुचित अर्थ वाले शब्द छाँटकर लिखिए -

- सुरभि - सुगंध, लड़की, गाय, पृथ्वी
- चपला - बिजली, लक्ष्मी, चंचल पुरुष, चंचल स्त्री
- पानी - जल, घर, चमक, सम्मान
- सुधा - वीर, अमृत, दूध, जल
- नाग - बादल, सर्प, हाथी, नगीना

## मुहावरे

निम्नलिखित मुहावरों को उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग के साथ जानें -

1. **उल्लू बनाना** ( मूर्ख बनाना ) - रितिक बहुत समझदार है, उसे उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है।
2. **कान का कच्चा** ( किसी की भी बात पर विश्वास कर लेना ) - रीना कान की कच्ची है, तभी अक्सर अपना नुकसान कर बैठती है।
3. **गुड़ गोबर करना** ( बने बनाए काम को बिगाड़ देना ) - सब बच्चे मिलकर खेल रहे थे, अचानक आई बारिश ने सब गुड़ गोबर कर दिया।
4. **चार चाँद लगाना** ( सम्मान या सुंदरता बढ़ाना ) - पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के सफल परीक्षण से भारत की प्रतिष्ठा में चार चाँद लग गए।
5. **छाती पर साँप लोटना** ( बहुत अधिक ईर्ष्या होना ) - अपने विरोधी को कामयाब होते देख रोहन की छाती पर साँप लोटने लगा।
6. **जान पर खेलना** ( प्राणों को संकट में डालना ) - भारतीय सैनिकों ने अपनी जान पर खेलकर आतंकवादियों से नागरिकों की रक्षा की।
7. **दाँत खट्टे करना** ( बुरी तरह हराना ) - युद्ध में भारतीय सेना ने शत्रुओं के दाँत खट्टे कर दिए।
8. **दाल में काला होना** ( संदेह की बात होना ) - मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, तभी तो वह बार - बार बयान बदल रहा है।
9. **दिन रात एक करना** ( निरंतर कठोर परिश्रम करना ) - रिया ने दिन - रात एक किया, तब जाकर वह अच्छे विद्यालय में प्रवेश पा सकी।
10. **बाएँ हाथ का खेल** ( बहुत सरल कार्य ) - कक्षा में प्रथम आना तो मोहन के लिए बाएँ हाथ का खेल है।

उचित मिलान कीजिए -

क) दिन - रात एक करना	संदेह की बात होना
ख) दाल में काला होना	निरंतर कठोर परिश्रम करना
ग) छाती पर साँप लोटना	प्राणों को संकट में डालना
घ) जान पर खेलना	बहुत अधिक ईर्ष्या होना

ज्ञातव्य: ऊपर लिखित पाठ्य एवं लेखन सामग्री पूर्ण रूपेण घर पर ही तैयार की गई है।